

December 21, 2024

**BSE Limited** 

Floor 25, P. J. Towers Dalal Street, Fort Mumbai - 400 001 **National Stock Exchange of India Limited** 

Exchange Plaza

Bandra Kurla Complex

Bandra (E)

Mumbai - 400 051

Scrip Code: 543271 Trading Symbol: JUBLINGREA

Dear Sirs,

#### Sub: Submission of copies of newspaper advertisements for Postal Ballot

Dear Sir,

In continuation of our letter dated December 20, 2024 we enclose copies of the advertisements published on December 21, 2024 in Mint (All editions-English) and Hindustan (Hindi), with respect to completion of dispatch of notices of Postal Ballot.

Thanking you,

Yours faithfully, For Jubilant Ingrevia Limited

Deepanjali Gulati Company Secretary

Encl.: a/a

A Jubilant Bhartia Company



Regd Office: Bhartiagram, Gajraula Distt. Amroha - 244 223 Uttar Pradesh, India CIN: U24299UP2019PLC122657



# **Capex flexibility tops** states' budget wishlist

Kerala, Punjab call for special financial packages, higher borrowing limits

gireesh.p@livemint.com

JAISALMER

tate governments on Friday sought extra headroom for their borrowings and greater fiscal support for their capital expendi $ture\,from\,the\,Centre, while\,advo$ cating an expansionary union budget for FY26 to arrest an economic slowdown and a weakening currency.

States also advocated that macroeconomic challenges should be comprehensively addressed in the Union budget. Punjab and Kerala sought special financial packages including more loans, grants, and borrowing flexibility.

Ministers from 28 states, including some of the chief ministers and deputy chief ministers, attended Union finance minister Nirmala Sitharaman's budget consultations on Friday. Officials from Delhi, Nagaland and Chhattisgarh attended the meeting in place of their ministers.

'States urged for an increase in borrowing limits to support fiscal activities and highlighted the need for state-specific road development and railway projects. Some states asked the central government to bear a larger share of land acquisition costs," said a person informed about discussions between the Centre and states.

'The size of the government expenditures at both national and state levels are vital for achieving faster economic growth as demonstrated by most developed nations," Kerala finance minister K.N. Bala-


03 (Three) years.

16:00 Hrs. of 03.02.2025.

Pune Metro : City's Transport Solution

gopal said at the meeting. Balagopal said the state was on a path of fiscal consolidation, but it was essential to recognize that if achieved through restrictions in government expenditure, it may not necessarily be a desirable outcome and may hinder economic growth and render fiscal consolida-

tion efforts counterproductive. The minister sought a ₹24,000 crore



States sought more fiscal support and borrowing leeway as growth slows to a sevenguarter low of 5.4% in July-September.

special package spread over two years and a₹2,000 crore package for the next financial year for offering relief to families affected by the landslide in Wayanad in July, showed a copy of the minister's speech seen by Mint. Balagopal told Mint that when states enhance their expenditure, it leads to growth, which in turn will

**FISCAL DEMANDS** 

**THE** states also

urged the Centre

to increase 50-year

interest-free loan

States asked the Centre to raise the allo-

cation for the 50-year interest-free loans

given to them, and greater flexibility in its

usage. For FY25, the Centre has allocated

₹1.5 trillion as special assistance as loan to

The Centre's capex allocation to states in

states for their capital expenditure.

enhance revenue collections.

**STATES** said that

macroeconomic

MAHARASHTRA METRO RAIL CORPORATION LTD.

Maha Metro, Block No. A3, Food Grain Godown, District Court Pune,

Nyaymurti Ranade Path, Shivaji Nagar, Pune - 411005

Web.: www.punemetrorail.org Tel.: 020-26051074

Name of Work: Facility Management Services (FMS) for 15 Stations, Hill View Park Car Depot and 18 Trainsets of Line-2 (Vanaz-Ramwadi) of Pune Metro Rail

Project for providing the following: a) Mechanized Housekeeping, Cleaning Services b) Ticketing (TOM/EFO) Services c) Security Services; for a period of

Interested bidders may visit Pune Metro Rail website www.punemetrorail.org to view this tender notice (NIT) and can download the Tender documents and

obtain further details regarding the Tender from e-tender portal of Govt. of

Maharashtra https://mahatenders.gov.in from 16:00 Hrs. on 23.12.2024 to

Executive Director/Procurement & Contracts Pune Metro Bail Project

Maharashtra Metro Rail Corporation Limited

PUNE METRO RAIL PROJECT

E-mail: tenders.pmrp@mahametro.org

challenges should be comprehensively

addressed in budge

the current financial year is ₹3.9 trillion, as per union budget documents.

Punjab finance minister Harpal Singh Cheema told reporters that the state has sought "an industrial package of ₹1,000 crore for border districts like Pathankot, Amritsar and Gurdaspur".

States' request for greater financial support from the Centre and greater leeway for borrowings come at a time the economic **THEY** also asked for growth slowed to a sevenhigher allocation for quarter low of 5.4% in Julydisaster response September. funds and payment

Centre's fiscal support to states, especially for infrastructure, is a growth driver, as per a study of state budgets released by the

RBI on Thursday. The improvement in quality of states' expenditure was sustained, with capex rising from 2.4% of GDP in 2021-22 to 2.8% in 2023-24 and budgeted at 3.1% of GDP in 2024-25. RBI said in its report. State Finances: A Study of Budgets of 2024-25.

### 'Adani foray into cement drives deep discounts'

NEWS

Nehal Chaliawala nehal.chaliawala@livemint.com

s competition in India's cement sector heated up with the entrance of the Adani Group in September 2022, top manufacturers bumped up discounts to maintain market share, according to a report from British wealth manager Investec.

Average discounts offered per tonne of cement by Ultra-Tech Cement, Shree Cement and Dalmia Bharat increased consistently over FY23 and FY24, shows the 8 December report. Ramco Cements saw a sharp drop in discounts in FY23 before a hike in FY24, data show. However, Ambuja Cements and ACC, the companies purchased by the Adani Group for its cement foray, gradually reduced discounts during the period. Discounting at Ambuja and ACC fell at a compound annual rate of 18% and 13%, respectively, between FY22 and FY24.

"Furthermore, (the) likes of (Shree Cement) hasn't only witnessed increase in discounts, but also credit days which even stands visible on 1HFY25 basis, a reflection of competitive intensity," the Investec analysts noted. Average receivable days for Shree Cement increased from 15 days in FY22 to 20 days in FY23, before moderating to 17 days in FY24, the data show.

The discounts are offered by cement firms to dealers and distributors, who pass those to end buyer, including cash discounts based on promptness in payment by the distributors, discounts based on purchase quantity and special discounts.

For an extended version of the story go to livemint.com





### Jubilant Ingrevia Limited (CIN: L24299UP2019PLC122657)

Registered Office: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223, Uttar Pradesh, India

E-mail: investors.ingrevia@jubl.com; Website: www.jubilantingrevia.com Phone: +91-5924-267437

#### POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110, and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, as amended, read together with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, General Circular No. 09 / 2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ('MCA Circulars'), and Circular SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable laws, rules, circulars, notifications and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), the Company has sent e-mail along with the Postal Ballot notice dated December 19, 2024 through National Securities Depository Limited ('NSDL') on December 20, 2024, and the Login ID and password to the Members for e-voting who have registered their E-mail IDs with the Depository Participants or with the Company or Registrar and Share Transfer Agent, for seeking approval of the Members of the Company by way of Ordinary Resolutions for (1) Appointment of Mr. Vijay Kumar Srivastava as Director [DIN: 07381359] and (2) Appointment of Mr. Vijay Kumar Srivastava as a Whole-time Director [DIN: 07381359] designated as Chief of Operations & Whole - Time Director.

In accordance with the above mentioned MCA Circulars, physical copies of the Postal Ballot Notice along with Postal Ballot forms and prepaid Business Reply Envelope have not been sent to any Member. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the Members eligible to vote. is restricted only to remote e-voting i.e. by casting votes electronically.

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Rupinder Singh Bhatia, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS-2599, CP No. F2514), as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process.

Members shall be able to provide their assent or dissent through e-voting only. The Company has entered into an agreement with NSDL for facilitating e-voting by the Members. The detailed procedure for e-voting is enumerated in the Notes to the Postal Ballot Notice. Members are requested to note that e-voting shall commence from Monday, December 23, 2024 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Tuesday, January 21, 2025 at 5:00 p.m. (IST). The e-voting module shall be disabled by

The voting rights of Members shall be reckoned as on Friday. December 13, 2024, which is the Cut-off date. The copy of the Postal Ballot Notice is available on the Company's website at www.jubilantingrevia.com, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <a href="www.bseindia.com">www.bseindia.com</a>, respectively and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com/. Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above mentioned websites.

### Process for those shareholders whose email ids are not registered

- 1. In case shares are held in physical mode, please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors.ingrevia@
- 2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investors.ingrevia@jubl.com or rta@alankit.com.
- 3. Alternatively, shareholder/members may send a request to <a href="mailto:evoting@nsdl.com">evoting@nsdl.com</a> for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.
- 4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-voting facility.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Amit Vishal, Deputy Vice President, or Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.com or contact at NSDL, T301, 3rd Floor, Naman Chambers, G Block, Plot No. C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai- 400051, India.

The results of the Postal Ballot will be declared on or before 5:00 pm (IST) within 2 (two working days) from the conclusion of the e-voting period i.e. on or before 5:00 p.m. IST on Thursday, January 23, 2025 at the Corporate Office of the Company at Plot No. 1A, Sector 16A, Noida - 201 301, Uttar Pradesh and will also be available at Registered Office of the Company at Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244223, Uttar Pradesh, The results along with the Scrutinizer's Report will also be communicated to the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited (hereinafter collectively referred to as 'Stock Exchanges') where the Equity Shares of the Company are listed and will be displayed on the Company's website at  $\underline{\text{www.jubilantingrevia.com}}$  as well as on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com

For Jubilant Ingrevia Limited Deepanjali Gulati **Company Secretary** 

FCS 5304

INDORE SMART CITY DEVELOPMENT LIMITED, INDORE Nehru Park Campus, INDORE-452003, Ph. No.: 0731-2535572

E-mail: smartcityindore16@gmail.com, Website: www.smartcityindore.org NIT No.: 16/ISCDL/2024-25 NOTICE INVITING TENDER

Indore Smart City Development Limited is inviting bids from reputed & experienced entities for

selection of a bidder for the work as detailed hereunder, through transparent online bidding process. RFP documents along with all the annexures and appendices can be downloaded and purchased from GoMP online e-tender portal: https://mptenders.gov.in


S.No.	Particulars	Desc	cription of Particulars				
1	Name of Work	freehold sale of 68,510.492 2 bearing khasra no. 866/2	election of Bidder (Development Agency) for 2 sq. m. land i.e., part of MOG Lines Land Parcel- 2(s), 866/2/3(s), 866/1/1/1 (s), 866/1/1/2 (s) gency as per the provisions described in the an				
2	Reserve Price (₹)	₹ 3,78,17,79,159/- (Three Hundred Seventy E Thousand One Hundred Fi	ight Crores Seventeen Lakhs Seventy Nine fty Nine Only)				
3	Earnest Money Deposit (2.5% of Reserve Price)	Seventy Nine Only) Bid Security i.e., EMD may	Five Lakhs Forty-Four Thousand Four Hundred be submitted as Bank Guarantee/ Fixed per the applicable guideline of e-				
4	Cost of Tender Form	₹ 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)					
5	Payment Duration	Eighteen (18) Months	_				
Key Dates:							
S.No.	Description		Date and Time				
	T						

		procurement portal						
4	Cost of Tender Form	orm ₹ 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)						
5	Payment Duration Eighteen (18) Months							
Key Da	ites:							
S.No.	Description		Date and Time					
1.	Last date for Purchas	e of Tender (Online)	15.01.2025 till 1730 Hrs.					
3.	Last date for submiss	sion of tender (Online)	15.01.2025 till 1730 Hrs.					
4.	Technical bid openin	g (Online)	16.01.2025 from 1730 Hrs.					
5.	Pre-Bid Meeting		03.01.2025 at 1500 Hrs. Venue: Board Room – Indore Smart City Development Limited, Nehru Park, Indore					
Notes	•	-						

- Tender Document and other details shall be available on Website: www.mptenders.gov.in
- Amendment to NIT, if any would be published on website only. • The EMD shall be deposited online through portal via Debit card / Credit card / Net banking or System
- Generated Challan. • In case any of the dates specified above is Government holiday, day after the same shall be considered. • The selected Bidder (Development Agency) shall be provided the "Land-Ownership Rights" of the land
- parcel upon deposit of the amount equivalent to the Quoted Value. The prospective bidders have to quote the Value for "Land-Ownership Rights" on the prescribed Land
- parcel above the Reserve Price of the land parcel specified in the Financial Bid Form.
- The Bidder quoting Highest Value for the land shall be selected as Bidder for the Project. The selected
- Bidder shall have to pay the quoted value in monetary terms as per provisions started in the RFP

For Any Clarification:/ Site Visits; Bidders may contact at 0731-2535572; smartcityindore16@gmail.com

**Chief Executive Officer** Indore Smart City Development Ltd., Indore



# **Connecting you to Global Insights!**

Discover comprehensive business news & perspectives curated by the **Leaders in Journalism** 

THE WALL STREET JOURNAL. | The Economist





Date: December 20, 2024

Place: Noida

### मुख्यमंत्री ने जेवर के किसानों के साथ संवाद में कहा

## नोएडा 10 वर्षों में देश का सबसे विकसित क्षेत्र होगा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने आवास पर जेवर के किसानों के साथ हुए संवाद कार्यक्रम में कहा कि अगले 10 वर्षों में यह देश का सबसे विकसित क्षेत्र होगा, पूरी दुनिया यहां की समृद्धि को देखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष अप्रैल में प्रधानमंत्री एशिया के इस सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर की वेलीडेशन फ्लाइट की सफलतापूर्वक लैंडिंग विगत 09 दिसंबर को की जा चुकी

है और अप्रैल 2025 से यहां से उड़ान सेवा भी प्रारंभ हो जाएगी। अब यहां 40 एकड क्षेत्रफल में एमआरओ का भी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एयरपोर्ट की

कनेक्टिविटी ईस्टर्न पेरीफेरल रोड से भी यमुना एक्सप्रेस वे पर इंटर्चैंज बनाकर की जाएगी। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल से भी नोएडा एयरपोर्ट के टर्मिनल के पास स्टेशन बना कर जोड़ा जाना है, नई दिल्ली व ग्रेटर नोएडा से जोड़ने के लिए आरआरटीएस रेल की डीपीआर का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा दी जा चुकी है तथा इसे अंतिम अप्रवल के लिये केंद्र को भेज किया गया है। इसके बाद दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की दूरी मात्र 21 मिनट

में तय होगी। जेवर के किसानों ने सीएम योगी की **प्रशंसा की** : मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले ने जेवर के किसानों का जीवन खशियों से भर दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के मौजूदा फैसले के कारण न केवल नोएडा का जेवर एयरपोर्ट विकास के उच्चतम प्रतिमान स्थापित करते हुए पूरे देश में रोलमॉडल बनकर उभरेगा, बल्कि यह उनके बच्चों के भविष्य को भी संवारने



लखनऊ में शुक्रवार को अपने आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट के भूमि प्रदाता किसानों से संवाद किया।

### मार्च-2025 तक सभी पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण पूरा कराएं: मुख्यमंत्री

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी अमल के लिए पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण मार्च 2025 तक पूरा करने को है। उन्होंने यह भी कहा कि कारागारों व थानों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को तीन नए कानूनों के अमल को हुई समीक्षा बैठक में यह

उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों में एक-एक फॉरोंसिक मोबाइल

उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाए। सीएम ने कारागार में वीसी यूनिट के अधिष्ठापन की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिये। सीएम ने सभी थानों पर विवेचकों व अभियोजन के अधिकारियों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यनिट की सविधा उपलब्ध कराने को कहा।

वैन ही संचालित हो रही है। ऐसे में सीएम

ने जल्द से जल्द सभी जिलों में एक-एक

और नयी फॉरेंसिक मोबाइल वैन की

सविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

अयोध्या में मिल्कीपुर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की: मख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मंथन भी किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों व पार्टी पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक

कर सांगठनिक सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहयोग कर बोगस नाम हटवाने के साथ 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नये मतदाताओं के नाम बढाने का प्रयास करना चाहिए।



#### जुबिलैंट इन्ग्रेविया लिमिटेड (सीआईएनः L24299UP2019PLC122657)

पंजीकृत कार्यालयः भारतियाग्राम, गजरौला, जिला अमरोहा-244 223 उत्तर प्रदेश इण्डिया

ई-मेलः investors.ingrevia@jubl.com; वेबसाइटः www.jubilantingrevia.com फोनः +91-5924-267437

#### डाक मतपत्र सूचना एवं ई-वोटिंग की जानकारी

सदस्यों को एतद द्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 एवं 110 के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधानों, यथा संशोधित, के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014, यथा संशोधित, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2024 दिनांकित 19 सितम्बर, 2024 ("एमसीए परिपत्रों") एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी परिपत्र SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांकित 3 अक्टूबर, 2024, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, इंस्टिट्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सेक्रेटेरियल स्टैण्डर्ड तथा किसी भी अन्य लागू कानूनों, नियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं एवं विनियमों (तत्समय लागू किसी भी वैधानिक संशोधन(ओं) अथवा उनके पुनः अधिनियमन(ओं) सहित) के अनुपालन में कम्पनी ने (1) श्री विजय कुमार श्रीवास्तव की निदेशक [डीआईएनः 07381359] के रूप में नियुक्ति तथा (2) श्री विजय कुमार श्रीवास्तव की पूर्णकालिक निदेशक [डीआईएनः 07381359] के रूप में नियुक्ति, परिचालन प्रमुख एवं पूर्णकालिक निदेशक के तौर पर नामित, करने की स्वीकृति साधारण प्रस्ताव द्वारा करने हेतु कम्पनी के सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करने के उद्देश्य से 20 दिसम्बर, 2024 को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से ई-मेल द्वारा डाक मतपत्र सूचना दिनांकित 19 दिसम्बर, 2024 एवं ई—वोटिंग हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उन सदस्यों, जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों या कम्पनी या रजिस्ट्रार व शेयर ट्रान्सफर एजेंट के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराया हुआ है, को भेज दिया है।

उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार, डाक मतपत्र सूचना की भौतिक प्रतियाँ, डाक मतपत्र फॉर्म एवं पूर्व प्रदत्त व्यावसायिक जवाबी लिफाफे किसी सदस्य को नहीं भेजे गए हैं। तदनुसार, मतदान हेतु पात्र सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार, केवल रिमोट ई–वोटिंग अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने तक ही सीमित है।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने श्री रुपिन्दर सिंह भाटिया, सम्व्यव्सायिक कम्पनी सचिव, (सदस्यता संख्या FCS-2599, CP संख्या F2514), को डाक मतपत्र प्रक्रिया के संचालन हेतु संवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है।

सदस्य केवल ई-वोटिंग के माध्यम से अपनी सहमति या असहमति प्रदान करने में सक्षम होंगे। कम्पनी ने सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा हेतु एनएसडीएल के साथ एक समझौता किया है। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया डाक मतपत्र सूचना की टिप्पणियों में दी गई है। सदस्यों से यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि ई—वोटिंग सोमवार, 23 दिसम्बर, 2024 को प्रातः 9:00 बजे (आईएसटी) आरम्भ होगी तथा मंगलवार, 21 जनवरी, 2025 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके उपरान्त मतदान हेतु ई—वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्यों के मतदान के अधिकार की गणना शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 के अनुसार की जाएगी, जो कि कट-ऑफ तिथि है। डाक मतपत्र सूचना की प्रति कम्पनी की वेबसाइट <u>www.jubilantingrevia.com</u>, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.bseindia.com</u> एवं www.nseindia.com क्रमशः, तथा एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/ पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना प्राप्त नहीं होता है, वे इसे उपरोक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं।

### उन शेयरधारकों, जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, हेतु प्रक्रिया

- 1. यदि शेयर भौतिक रूप में प्रतिरक्षित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे एवं पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ई-मेल द्वारा investors.ingrevia@jubl.com अथवा <u>rta@alankit.com</u> पर भेजें।
- 2. यदि शेयर डीमैट रूप में प्रतिरक्षित हैं तो कृपया डीपीआईडी–क्लाइंट आईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + क्लाइंट आईडी या 16 अंकों का लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) <u>investors.ingrevia@jubl.com</u> अथवा <u>rta@alankit.com</u> पर भेजें।
- वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक / सदस्य ई–वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर उपर्युक्त दस्तावेज प्रदान करते हुए अनुरोध भेज सकते हैं।
- सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसम्बर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ प्रतिरक्षित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी एवं डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अनुरक्षित अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमित है। ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने हेतु शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उचित ढंग से अपडेट करना वांछित है।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु 'फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चनस' (FAQs) एवं शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल संदर्भित कर सकते हैं अथवा 022 – 4886 7000 पर कॉल करें अथवा श्री अमित विषाल, उप उपाध्यक्ष या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजें अथवा एनएसडीएल, टी301, नमन चैम्बर्स, जी ब्लाक, प्लॉट संख्या सी-32, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400051, भारत से संपर्क करें।

डाक मतपत्र के परिणाम ई—वोटिंग अवधि के समापन से 2 (दो कार्य दिवस) के भीतर सायं 5:00 बजे (आईएसटी) या उससे पूर्व, अर्थात् बृहस्पतिवार, 23 जनवरी, 2025 को सायं 5:00 बजे (आईएसटी) या उससे पूर्व, कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय, प्लॉट संख्या १ए, सेक्टर १६ए, नोएडा – २०१ ३०१, उत्तर प्रदेश में उद्घोषित किए जाएंगे तथा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय भारतियाग्राम, गजरौला, जिला अमरोहा – 244223, उत्तर प्रदेश में भी उपलब्ध किए जाएंगे। परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') एवं बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से 'स्टॉक एक्सचेंज' के रूप में संदर्भित), जहाँ कम्पनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, को भी सूचित किए जाएंगे, और कम्पनी की वेबसाइट www.jubilantingrevia.com के साथ ही एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

> कृते जुबिलैंट इन्ग्रेविया लिमिटेड हस्ताक्षर /-

दीपांजली गुलाटी कम्पनी सचिव एफसीएस 5304 वर्ष 2024–25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत चन्दौसी

सम्भल मार्ग (एम0डी0आर0) के किमी0 12 में वर्ष

2023 में चिन्हित हॉट स्पॉट ग्राम सराय सिकन्दर

तिराहा का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का

0.50

5.00

677.00

रोड साईनेज

## परिषदीय स्कूलों में अब हर महीने होगी परीक्षा

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। तिमाही-छमाही नहीं अब हर महीने परिषदीय स्कूलों में बच्चों की परीक्षा होगी। राज्य सरकार ने कॉन्वेंट स्कूलों की भांति परिषदीय स्कूलों में भी बच्चों के शैक्षिक आंकलन के लिए प्रत्येक माह टेस्ट लिए जाने का निर्णय किया है। इस नई व्यवस्था को नए शिक्षण सत्र से लागू करने की तैयारी है।

दुसरी तरफ राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रति माह टेस्ट के लिए कोर्स तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए नए शिक्षण सत्र से हर महीने पीटीएम (पैरेंट-टीचर मीटिंग) भी कराया जाएगा। जानकारों की माने तो प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधारने

### आधुनिक शिक्षा पर रहेगा अधिक फोकस

नए शिक्षण सत्र में नई व्यवस्था लागू होने के बाद स्कूलों में स्मार्ट क्लास की संख्या बढाई जाएगी। प्रिंट मैटेरियल, विग बुक्स, पिक्चर स्टोरी कार्ड, पोस्टर्स, वार्तालाप चाटर्स व टीएलएम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इससे बच्चों का बौद्धिक विकास होगा।

के लिए सरकार परिषदीय स्कूलों में नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत कान्वेंट स्कूलों की भांति ही प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में भी हर महीने विद्यार्थियों का टेस्ट लिया जाएगा। ताकि बच्चों के शैक्षिक आंकलन का पता लगाया जा सके।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

## लेकर पश्चाताप करें'

लखनऊ। बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कहा है कि वह अपने शब्द वापस लेकर पश्चाताप करें।

मायावती ने शुक्रवार को सोशल

मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, 'भाजपा के अमित शाह द्वारा संसद में दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परमपुज्य बाबासाहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उससे इन वर्गों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। ऐसे में उन शब्दों को वापस लेकर इनको पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए।' उन्होंने लिखा, वैसे कांग्रेस, भाजपा एवं इनके सहयोगी दलों का चाल. चरित्र व चेहरा बाबा साहेब डा. आंबेडकर व उनके करोड़ों दलित-पिछड़े, शोषित-पीड़ित अनुयायियों के हितों और कल्याण के प्रति हमेशा संकीर्ण एवं जातिवादी रहा है।

### 'शाह अपने शब्द वापस वाहन में फंसा शवधसीटने पर नायब तहसीलदार निलंबित

बहराइच, संवाददाता। जिला मुख्यालय से गुरुवार की रात तहसील मुख्यालय लौटने के दौरान बहराइच-नानपारा हाईवे के आईटीआई के पास हादसा होने पर वाहन में फंसे शव को 28 किलोमीटर घीसटने के मामले में डीएम मोनिका रानी ने सख्त कदम उठाए हैं। संवेदनहीनता पर नायब तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से

निलंबित कर दिया गया है। वाहन चालक पर मुकदमा दर्ज कर रामगांव पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

नानपारा तहसील क्षेत्र में नायब तहसीलदार शैलेंद्र कुमार अवस्थी तैनात हैं। गुरुवार को वह बोर्ड परीक्षा केंद्र की जांच करने के लिए तहसीलदार के वाहन से जिला मुख्यालय आए हुए थे।

### नवजातकी सिरमें चोटलगने से हुई मौत

भकरौली,(संभल)। मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर धनारी थाना क्षेत्र के गांव भागनागर पर बीते रविवार को रोडवेज बस से किसी ने थैले मे बंद कर नवजात को फेंक दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नवजात की मौत का कारण सिर में चोट लगना बताया गया है। पुलिस

वर्ष 2024–25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत पाठकपुर

नाधा मार्ग (ओ०डी०आर०) के किमी० 1 में वर्ष 2023

मामले की जांच में जुटी है। बीते रविवार को सुबह करीब 6:30 बजे किसी ने चलती रोडवेज बस से एक नवजात को थैले में बंद कर फेंक दिया था। यह दर्दनाक घटना रामवीर के खेत के पास हुई। उसी समय खेत के पास खेल रही सात वर्षीय किशोरी की नजर थैले पर पड़ी।

		कायालय आव प्रान्तीय खण्ड, ल						20	सम्मल	नाधा मार्ग (ओ०डी०आर०) के किमी० 1 में वर्ष 2023 में चिन्हित हॉट स्पॉट पाठकपुर का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य।	4.00	0.40	2 माह	677.00	रोड र श्रेप
4	पत्रांक	3500 / ई—निविदा / 24—25 <u>ई</u> — प्रोक्योर हेम, राज्यपाल उ०प्र० की ओर से अधिशासी अ	नेन्ट ि	नेविदा	सूच	देनांक :- 11.1 <u>न</u> ा		21	सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत रजपुरा टिकटा बहजोई मार्ग (ओ0डी0आर0) के किमी0 1 में वर्ष 2024 में चिन्हित हॉट स्पॉट बहटा जयसिंह चौराहा का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य।	4.00	0.40	2 माह	677.00	ए रोड र श्रे
1-	ऑनल 24.12.	हन, राज्यपात उठाठ प्रग आर ते आवसाता ज ग्राइन निविदायें वेबसाइट <u>http://etender.up.</u> 2024 प्रातः 10 बजे से 09.01.2025 को 12.00 ब दिनांक 09.01.2025 को 12.30 बजे अघोहस्ताक्षरी	<u>nic.in</u> के बजे तक आग	माध्यम से मंत्रित की जा	आर्थराइज्ड र ती है। निविद	रजिस्टर्ड निविदादाताः 1 की प्री–क्वालिफिके	ओं से दिनांक शन/टैक्नीकल	22	सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेगटी के अन्तर्गत धनारी मिरावटी मार्ग (ओ०डी०आर०) के किमी० 9 में वर्ष 2024 में चिन्हित हॉट स्पॉट आरथल चौराहा का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य।	7.00	0.70	2 माह	766.00	र रोड <sup>:</sup> श्रे
	बिड र होने व	गठित समिति के सदस्यों द्वारा ऑनलाइन खोली खोले जाने के दिनांक व समय हेतु पृथक से सूच की दशा में प्री–क्वालिफिकेशन/टैक्नीकल बिंड ग निम्नवत है–	ाना इस काय	लिय द्वारा जा	री की जायेर्ग	ो। कार्यालय बन्द होनं	ने अथवा छुट्टी	23	सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड संघटी के अन्तर्गत मेरठ बदायूँ मार्ग (एस0एच0-18) के किमी0 144 में वर्ष 2024 में चिन्हित हॉट स्पॉट ममता नर्सिंग होम गुन्तौर का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य।	30.00	3.00	2 माह	854.00	रोड १
2 — F		कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू० लाख	धरोहर धनराशि (रूo लाख	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षा	निविदा प्रपत्र का मूल्य स्टेशनरी व जी०एस०टी सहित	ठेकेंदार के पंजीयन की श्रेणी	24	सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेमटी के अन्तर्गत मेरठ बदायूँ मार्ग (एस0एच0-18) के किमी० 146 में वर्ष 2024 में बिन्हित हॉट स्पॉट जगनाधपुर गुनौर का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य। वर्ष 2024-25 में रोड सेमटी के अन्तर्गत बबराला	24.00	2.40	2 माह	854.00	रोड
	2	3 वर्ष 24–25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत	में) 4 अल्पकालिक र	में) 5 पुधार के कार्य (	काल सहित) 6 स्वीकृति की प्रत्	(रू० में) 7 याशा में)	8	25	सम्भल	गवां रहरा मार्ग (एम०डी०आ२०) के किमी० 13 में वर्ष 2024 में चिन्हित हॉट स्पॉट रजपुरा डी०एस०एम० शुगर मिल का दीर्घकालिक एवं	13.00	1.30	2 माह	766.00	रोड ॐ
1	सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत जनपद सम्भल में दुर्घटना बाहुल्स क्षेत्र में चिन्हित ब्लैक स्पॉट मुरादाबाद गवां बुलन्दशहर मार्ग (अनुपशहर डिबाई माग सहित) राज्य मार्ग-148 के किमी0 61	7.00	0.70	2 माह	766.00	ए० रोड साईनेज श्रेणी	26	सम्भल	अल्पकालिक सुधार का कार्य। वर्ष 2024-25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत मुरादाबाद गवां बुलन्दशहर मार्ग (राज्य मार्ग-148) के किमी0 66 में वर्ष 2023 में चिन्हत हॉट स्पॉट दीपपुर डांडा का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य।	7.00	0.70	2 माह	766.00	रोड
	सम्भल	में स्थित कैंसरपुर तिराहा ब्लैक स्पोट का दीघकालिक एवं अल्पकालिक सुधार कार्य। वर्ष 2024–25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत चन्दौसी सम्भल मार्ग (एम०डी०आ२०) के किमी० 24 में वर्ष			2 माह		OJ.	27	सम्भल	वर्ष 2024–25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत भेरठ बदायूँ मार्ग (एस0एच0–18) के किमी0 153 में वर्ष 2023 में बिन्हित हॉट स्पॉट धनीपुर का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य।	30.00	3.00	2 माह	854.00	रोड
2		2023 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट बिछौली (बाईपास तिराहा) का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार कार्य।	9.00	0.90	2 116	766.00	रोड साईनेज श्रेणी	28	सम्भल	वर्ष 2024–25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत मेरठ बदायूँ मार्ग (एस0एच0–18) के किमी0 151 में वर्ष 2023 में चिन्हित हॉट स्पॉट ग्राम जुनावई का दीर्घकालिक	29.00	2.90	2 माह	854.00	रोड
,	सम्भल सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत सम्मल जोया मार्ग (एम०डी०आ२०) के किमी० 15 में अकबरपुर गहरा का अल्पकालिक सुधार का कार्य। वर्ष 2024-25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत सम्मल	9.00	0.90	2 माह	766.00	ए० रोड साईनेज श्रेणी	29	सम्भल	एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य। वर्ष 2024-25 में रोड संघटी के अन्तर्गत मेरठ बदायूँ मार्ग (एस0एच0-18) के किमी0 161 में वर्ष 2024 में चिन्हित हॉट स्पॉट कादराबाद का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य।	17.00	1.70	2 माह	854.00	रोड
1	TIME	जोया मार्ग (एम०डी०आर०) के किमी० ४ में ०1 टी-जंबरान (चै० ३.95०) एवं तीव्र मोड़ (चै० ३. ८००-३.90० तक) वर्ष २०२४ में चिन्हित ब्लैक स्पॉट ताजपुर का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार	9.00	0.90	2 माह	766.00	ए० रोड साईनेज श्रेणी	30	सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत चन्दौसी बेरनी रीठ का बाजार मार्ग (ओ०डी०आर०) के किमी० 11 में वर्ष 2024 में चिन्हित हॉट स्पॉट बेरनी तिराहा का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य।	3.00	0.30	2 माह	677.00	रोड
5	सम्भल	काय।  वर्ष 2024—25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत एन0एच0—93 चन्दौसी बाईपास किमी0 192.30 से 197.45 चन्दौसी शहरी मार्ग के किमी0 195 में वर्ष 2024 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट मौलागड़ की पुलिया	5.00	0.50	2 माह	677.00	ए० रोड <sub>़</sub> साईनेज	31	सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत चन्दौसी बेरनी रीठ का बाजार मार्ग (ओठडीठआरठ) के किमी0 9 में वर्ष 2024 में चिन्हित हॉट रपॉट राजधल चौराहा का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य।	3.00	0.30	2 माह	677.00	रोड
		का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार कार्य। वर्ष 2024–25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत मुरादाबाद					श्रेणी	32	सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत पाठकपुर नाधा मार्ग (ओ०डी०आर०) के किमी० 13 में वर्ष 2024 में विन्हित हॉट स्पॉट गढी बिचौला का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य।	4.00	0.40	2 माह	677.00	रोड
5	सम्भल	गवां बुलन्दाहर मार्ग (अनूपशहर डिबाई भाग सहित) एस0एच0–148 पर वर्ष 2024 में चिन्हित ब्लैक स्पॉट मोतीनगर का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य। वर्ष 2024–25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत मुरादाबाद	6.00	0.60	2 माह	766.00	ए० रोड साईनेज श्रेणी	33	सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत मुरादाबाद-गवा-बुलन्दशहर मार्ग (अनूपशहर डिबाई माग सहित) (राज्य मार्ग-148) पर पड़ने वाले 02 चौराहे (बै0 25.050 एवं बै0 65.980) एवं 04 टी-जंबशन (बै0 58.520, 59.130, 62.350, 62.800)	21.00	2.10	2 माह	854.00	रोड
7	सम्भल	नवां बुलन्दराहर मार्ग (राज्य मार्ग-148) के किमी० ति में वर्ष 2023 में चिन्हित हॉट स्पॉट गवां पेट्रोल पम्प का दीर्घकालिक एवं अत्यकालिक सुधार का कार्य।	4.00	0.40	2 माह	677.00	ए० रोड साईनेज श्रेणी	34	सम्भल	पर सड़क सुरक्षा का कार्य। वर्ष 2024-25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत सम्मल जोया मार्ग (प्रमुख जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 02 चौराहे (वै0 7.400, 11.900) एवं 03 टी-जंक्शन (वै0	17.00	1.70	2 माह	854.00	रोड
3	सम्भल	वर्ष 2024–25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत मुरादाबाद गवां बुलन्दशहर मार्ग (राज्य मार्ग–148) पर वर्ष 2023 में चिन्हित हॉट स्पॉट सिरसी–बिलारी तिराहा का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य।	4.00	0.40	2 माह	677.00	ए० रोड साईनेज श्रेणी	35	सम्भल	3.400, 5.800, 12.650) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। वर्ष 2024-25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत पाठकपुर फरीदपुर कैलादेवी शकरपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 01 चौराहा (चैं0 17.450) एवं 05 टी—जंक्शन (चैं0 0.750, 3.150, 5.050, 5.500, 8. 500) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	12.00	1.20	2 माह	766.00	रोड
)	सम्भल	वर्ष 2024–25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत सम्मल आदमपुर मार्ग (ओ०डी०आर०) पर वर्ष 2023 में चिन्हित हॉट स्पॉट सौंघन चौराहा का दीर्घकालिक	4.00	0.40	2 माह	677.00	ए० रोड साईनेज श्रेणी	36	सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत बबराला अनूपशहर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 01 चौराहे (बैं0 13.780) एवं 03 टी-जंबशन (बैं0 3. 450, 8.860, 12.120) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	16.00	1.60	2 माह	854.00	रोड
0	सम्भल	एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य। वर्ष 2024–25 में रोड सेंगटी के अन्तर्गत मुरादाबाद गवां बुलन्दशहर मार्ग (राज्य मार्ग–148) के किमी0 40 में वर्ष 2023 में चिन्हित हॉट स्पॉट खिरनी तिराहा का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का	8.00	0.80	2 माह	766.00	ए० रोड साईनेज श्रेणी	37	सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत ग्राम मदन से मुरादाबाद सम्मल मार्ग (अन्य जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 01 चौराहे (बैं0 4.575) एवं 03 टी—जंक्शन (बैं0 6.980, 7.150, 11.250) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।	15.00	1.50	2 माह	766.00	रोड
1	सम्भल	कार्य। वर्ष 2024–25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत सम्भल जोया मार्ग (एम०डी०आर०) के किमी० 17 में वर्ष 2023 में चिन्हित हॉट स्पॉट मनौटा पुल का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य।	10.00	1.00	2 माह	766.00	ए० रोड साईनेज श्रेणी	38	सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड़ सेफ्टी के अन्तर्गत तहसील सम्भल की शहरी आबादी हेतु बाईपास (अन्य जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 04 चौराहे (चै० 0.000, 5.900, 8.500, 12.000) एवं 03 टी-जंक्शन (चै० 3.420, 3.	28.00	2.80	2 माह	854.00	रोड
2	सम्भल	वर्ष 2024–25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत लोधीपुर मदन टांडा असमोली मार्ग (ओठडी०आर०) के किमी० 10 में वर्ष 2024 में चिन्हित हॉट स्पॉट ग्राम खासपुर का दीर्घकालिक एवं अत्यकालिक सुधार का कार्य।	9.00	0.90	2 माह	766.00	ए० रोड साईनेज श्रेणी		सम्भल	600, 12800) तथा 05 तीव्र मोड़ों पर चौडीकरण (चै0 5.100, 5.250, 6.200, 6.350, 11.200) पर सड़क सुरक्षा का कार्य। वर्ष 2024-25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत					,
3	सम्भल	वर्ष 2024-25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत सैदनगली मनौटा चौधरपुर मार्ग (ओ०डी०आर०) के किमी० 5 में वर्ष 2024 में चिन्हित हॉट स्पॉट चितावली मोड़ का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य।	7.00	0.70	2 माह	766.00	ए० रोड साईनेज श्रेणी	39	างเราเป	मुरादाबाद-गवा-बुलन्दशहर मार्ग (अनूपशहर डिबाई माग सहित) (राज्य मार्ग-148) सिरसी से ग्राम नाबाडा, हरसिंहपुर होते हुए एल०एम०टी० मार्ग तक (अन्य जिला मार्ग) पर पड़ने वाले 02 चीराहे (वैठ 3. 475, 6.500) एवं 04 टी-जंक्शन (वैठ 1,200, 3.675,	10.00	1.00	2 माह	766.00	रोड
4	सम्भल	वर्ष 2024–25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत मुरादाबाद फर्रूखाबाद मार्ग (एस०एच०–43) के किमी० 47 में वर्ष 2024 में चिन्हित हॉट स्पॉट पथरा मोड मई भटटे के पास का दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य।	6.00	0.60	2 माह	766.00	ए० रोड साईनेज श्रेणी	40	सम्भल	5.700, 8.750) पर सड़क सुरक्षा का कार्य।  वर्ष 2024–25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत मुरादाबाद गवां बुलन्दशहर मार्ग (अनुपशहर डिबाई माग सहित) राज्य मार्ग –148 के किमी0 32 में स्थित	8.00	0.80	2 माह	766.00	रोड
5	सम्भल	वर्ष 2024–25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत मुरादाबाद फर्रुखाबाद मार्ग (एस0एच0–43) के किमी० 44 में वर्ष 2024 में चिन्हित हॉट स्पॉट तहसील तिराहा का	11.00	1.10	2 माह	766.00	ए० रोड साईनेज श्रेणी	41	सम्भल	चौधरीसराय चौराहा का सुधार कार्य। वर्ष 2024–25 में रोड सेफटी के अन्तर्गत मुरादाबाद गवां बुलन्दशहर मार्ग (अनूपशहर डिबाई भाग सहित) राज्य मार्ग –148 पर स्थित चन्दौसी चौराहा का	3.00	0.30	2 माह	677.00	रोड
6	सम्भल	दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य। वर्ष 2024–25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत मुरादाबाद फर्रुखाबाद मार्ग (एस०एच०–43) के किमी० 43 में वर्ष 2023 में चिन्हित हॉट स्पॉट चन्दौसी बाईपास रिलाईन्स पैट्रोल पम्प के पास का दीर्घकालिक एवं	8.00	0.80	2 माह	766.00	ए० रोड साईनेज श्रेणी	42	सम्भल	सुधार कार्य। वर्ष 2024–25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत सम्मल जोया मार्ग (एम०डी०आर०) के किमी० 3 में वर्ष 2024 में चिन्हित हॉट स्पॉट नाहरठेर का दीर्घकालिक एवं अत्यकालिक सुधार का कार्य।	9.00	0.90	2 माह	766.00	रोड
7	सम्भल	अल्पकालिक सुधार का कार्य। वर्ष 2024–25 में रोड सेपटी के अन्तर्गत चन्दौसी सम्भल मार्ग (एम०डी०आर०) के किमी० 1 में वर्ष 2024 में चिन्हित हॉट स्पॉट सम्भल तिराहा का	9.00	0.90	2 माह	766.00	श्रण। ए० रोड साईनेज श्रेणी	43	सम्भल	्वाधणालक एवं अल्याजातक सुधार का काव। वर्ष 2024-25 में डों सेंग्टी के अन्तर्गत लोधीपुर महन टॉडा असमोली मार्ग (अन्त 12.950) एवं एवं एडने वाले 01 चीराहे (चैंच 12.950) एवं एटें टी-जंक्शन (चैंच 0.000, 14.800) वाथा (चैंच 15.100, 15.200, 15.400, 15.500, 17.800, 17.900) पर	36.00	3.60	2 माह	854.00	रोड
8	सम्भल	दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक सुधार का कार्य। वर्ष 2024–25 में रोड सेफ्टी के अन्तर्गत चन्दौसी सम्भल मार्ग (एम०डी०आ२०) के किमी० 10 में वर्ष 2024 में चिन्हित हॉट स्पॉट झण्डे वाला बाग का	7.00	0.70	2 माह	766.00	ए० रोड साईनेज	खोल	ने पर लॉगिन	13,200,   13,400,   13,300,   17,300,   17,300,   पर   सड़क सुरक्षा का कार्य    निवेदाओं का तकनीकी मूल्यांकन प्रहरी सापटवेयर के माध्य   फेज खुल जायेगा, जिस पर Contractor Select करने समय चाणवय पोर्टल पर बनाया गया था। निविदादाता द्वा	  म से किया जा   पर लॉगिन वि	व्या जा सकता है	। निविदादाता क	ग लॉगिन आई–डी एवं प	hari/ है ासवर्ड वर्ह

UP-224390, Dt. 18.12.2024

निविदा से सम्बन्धित नियम / शर्ते तथा विवरण वेबसाइट <a href="http://etender.up.nic.in">http://etender.up.nic.in</a> पर उपलब्ध है

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०

(महामहिम राज्यपाल की ओर से)

#### दिनांकः 20 दिसम्बर, 2024 स्थानः नोएडा